

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2013 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 2013 (फाल्गुन 15, 1934)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का दिनांक 30 जून, 2012 को समाप्त हुए अकादमिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मॉयल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना बहरी सड़क मार्ग के निर्माण में अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर शहर में व्हाइटनर की अवैध बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कमलेश जाटव, सदस्य, मुरैना जिले के-

- (क) ग्राम अम्बाह से चिरपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम चुसलई से रायगढ़ तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम ललाकापुरा से दोहरोटा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम मटियापुरा से रिठवारी तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम रन्हेरा से रछेड़ तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (च) ग्राम किशनपुरा से लुखरिमाई तक सड़क निर्माण किये जाने,

(2) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-

- (क) जनपद पंचायत साईंखेड़ा में कालेज खोले जाने,
- (ख) ग्राम सालीचौका में जनपद पंचायत की स्थापना किये जाने,
- (ग) ग्राम गांगई के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम रायपुर के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ङ) विकासखण्ड साईंखेड़ा के ग्राम पिपरिया कला से उसराय, ऊयरी से बाघाकुड़ी, झारगांव से बांदरबरू तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम नगर के-

- (क) नगर के वार्ड क्र. 29 रहमत नगर में नाली एवं सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) वार्ड क्र. 20 पोरवाल नगर में विद्युतीकरण कराये जाने,
- (ग) नगर में संस्कृतिक सभा गृह का निर्माण किये जाने,
- (घ) नगर के सुभाष नगर रेलवे फाटक पर ओव्हर ब्रिज बनाये जाने,
- (ङ) झाबुआ, मंदसौर, नीमच को मिलाकर रतलाम संभाग बनाये जाने
- (च) व्यवसायिक परिक्षा मंडल द्वारा चयनित परीक्षायें निशुल्क आयोजित कराये जाने, तथा
- (छ) प्रदेश के निजी चिकित्सालयों के चिकित्सा शुल्क पर अंकुश लगाये जाने,

(4) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के-

- (क) ग्राम बाईंहेडा से खजुरिया के बीच नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम कोलूखेड़ी के शासकीय विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम कोलूखेड़ी से तुलसीपुरा के बीच नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम कोलूखेड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम सामरखो के तालाब की मरम्मत कराये जाने, तथा
- (च) ग्राम कोदिमापुरा के तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

- (5) कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के-
- (क) ग्राम खजूबा के धनुषधारी मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,
  - (ख) ग्राम दलपतपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
  - (ग) ग्राम कुरैला की शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
  - (घ) ग्राम बरा के मौजा राघवघाट के पास बिजली के खम्भे लगाये जाने,
  - (ङ) ग्राम जमुनया की शासकीय प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
  - (च) ग्राम देवगांव को गंज पंचायत में सम्मिलित किये जाने, तथा
  - (छ) ग्राम गोरा को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़े जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित  
समय

**5. वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)**

1 घण्टा

- (1) मांग संख्या – 14 पशुपालन  
मांग संख्या – 16 मछलीपालन

2 घण्टे  
30 मि.

- (2) मांग संख्या – 21 आवास एवं पर्यावरण  
मांग संख्या – 23 जल संसाधन  
मांग संख्या – 40 जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट  
मांग संख्या – 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य  
मांग संख्या – 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2 घण्टे

- (3) मांग संख्या – 12 ऊर्जा  
मांग संख्या – 25 खनिज साधन

2 घण्टे  
30 मि.

- (4) मांग संख्या – 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन  
मांग संख्या – 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय  
मांग संख्या – 35 पुनर्वास  
मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

3 घण्टे

- (5) मांग संख्या – 15 अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  
मांग संख्या – 30 ग्रामीण विकास  
मांग संख्या – 34 सामाजिक न्याय  
मांग संख्या – 52 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  
मांग संख्या – 59 ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं  
मांग संख्या – 62 पंचायत  
मांग संख्या - 74 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

**भोपाल :**  
**दिनांक : 5 मार्च, 2013**

**राजकुमार पांडे**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**